



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2007 (भाद्रपद 24, 1929)  
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2007 (BHADRA 24, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. 03/03/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति जी श्री शमशेर के. शरीफ को उपराष्ट्रपति के सचिव पद पर दिनांक 24 अगस्त, 2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

सं. 03/04/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति जी श्री पार्वतानेनी हरीश को उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर दिनांक 20 अगस्त, 2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

जी उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	सी.एस.एल.क्र.	चयन सूची
	(सर्वश्री)		
1.	राजेन्द्र शर्मा	3998	2001
2.	शिशिर दास	4045	2001
3.	पी. ए. के. विनायक	3882-ए	2002

पी. के. राय, उपसचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. आरएस./6(i)/2007/94-कार्मिक--अधिसूचना सं. आरएस/6(i)/2007/93-कार्मिक, दिनांक 14 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में राज्य सभा सचिवालय में सहपदावसान के आधार पर विशेष कार्याधिकारी श्री गुरदीप सिंह सप्यल को 14 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए.22012/1/2007/पीएमए--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारियों की वर्ष 2001 और 2002 की चयन सूचियों में निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों के नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति

आदेशों तक राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया है।

के. सुधाकरन, उप निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. आरएस./1091/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री पी. एल. गैद, सहायक निदेशक 31 अगस्त, 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

#### अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 31 अगस्त 2007.

सं. ए.एस./एस-25--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सदस्यों के साथ अन्तरिक्ष आयोग का पुनर्गठन आगामी आदेश तक करती हैं :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. श्री जी. माधवन नायर<br>सचिव, अन्तरिक्ष विभाग                   | अध्यक्ष       |
| 2. श्री पृथ्वीराज चव्हाण<br>राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) | सदस्य         |
| 3. श्री एम. के. नारायणन<br>राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार              | सदस्य         |
| 4. श्री टी. के. ए. नायर<br>प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव           | सदस्य         |
| 5. श्री के. एम. चन्द्रशेखर<br>मंत्रिमंडलीय सचिव                   | सदस्य         |
| 6. डॉ. डी. सुब्बराव<br>सचिव, आर्थिक कार्य विभाग                   | सदस्य         |
| 7. श्री आर. सी. जोशी<br>सदस्य (वित्त), अन्तरिक्ष आयोग             | सदस्य (वित्त) |
| 8. प्रो. आर. नरसिंहा<br>भूतपूर्व निदेशक, एन.आई.ए.एस.              | सदस्य         |
| 9. श्री एन. पंत<br>भूतपूर्व उपाध्यक्ष, इसरो                       | सदस्य         |
| 10. डॉ. बी. एन. सुरेश<br>निदेशक, आईआईएसटी                         | सदस्य         |

एस. वी. रंगनाथ, सचिव  
अन्तरिक्ष आयोग

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ए-32014/02/2006-प्रशा.IV(वि.का0)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 3 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 21/61/2005-सी.एस. I के अनुसरण में राष्ट्रपति, विधायी विभाग में सहायक श्री विनय कुमार को विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में दिनांक 27 अगस्त, 2007 के पूर्वान्वेष्टन से अगले आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा.IV(वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.2007 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस-II के अनुसरण में तथा अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड सी आशुलिपिकों को दिनांक 09.08.2007 से 31.12.2007 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में रु. 6500-10500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	तैनाती का वर्तमान स्थान
(सर्वश्री)		
1.	भवानी प्रसाद	विधायी विभाग
2.	सुश्री शिखा खुराना	विधि कार्य विभाग
3.	रंजीत सिंह	विधायी विभाग
4.	आर. करुणाकरण	विधायी विभाग

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उपरोक्त अवधि के लिए उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा ग्रेड क और ख (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली-11, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. ए-19011/1/2006-अ.रा.प्र. (प्र.)--राष्ट्रपति, श्रीमती वीणा उपाध्याय, परामर्शी, भा. प्र. से. (उ. प्र. 76) को 29 जून 2007, पूर्वान्वेष्टन

से अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव स्तर एवं वेतनमान में परामर्शी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2007

सं. 13017/14/2007-अ.भा.से.-(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम-मेघालय एवं छत्तीसगढ़ की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री विजयेन्द्र, भा.प्र.से. (ए.एम. : 91) को असम-मेघालय से छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. 13017/24/2004-अ.भा.से.-(I) (पी.टी.)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम. जी. वी. के. भानु, भा.प्र.से. (ए.एम. : 85) को असम-मेघालय से आन्ध्र प्रदेश में दी गई प्रतिनियुक्ति को दिनांक 02.08.2007 से आगे एक वर्ष की अंतिम अवधि के लिए बढ़ाने हेतु एतद्वारा इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान करती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अगले विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी और अधिकारी यदि दिनांक 05.08.2008 तक असम में कार्यभार ग्रहण करने हेतु रिपोर्ट नहीं करता है तो वह स्वतः अनुशासनिक कार्यवाही का हकदार हो जाएगा।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. 13013/1/2007-अ.भा.से.-(I)--केन्द्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनय शुक्ला, भा.प्र.से. (आर.आर. : 74) को छत्तीसगढ़ संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में तत्काल प्रभाव से पुनः आवंटित करती है।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. 13017/13/2007-अ.भा.से.-(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान और हरियाणा

सरकारों की सहमति से श्री ए. श्रीनिवास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.जे. : 2004) को हरियाणा संवर्ग की श्रीमती मोना प्रुथी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एच.वाई. : 2006) से विवाह हो जाने के आधार पर राजस्थान के भारतीय प्रशासनिक सेवा से संवर्ग से हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 23012/04/2007-अ.भा.से.-III--श्री विजय कुमार, भा.प्र.से. (हरियाणा : 2001), जो 2000 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए तथा जो हरियाणा संवर्ग के हैं, उन्हें अपना नाम "विजय कुमार" से बदल कर "विजय सिंह दहिया" करने को मंजूरी दे दी गई है। अतः तदनुसार उन्हें सभी सरकारी प्रयोजनों हेतु श्री विजय सिंह दहिया के रूप में जाना जायेगा।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. ए-19011/4/2006-पीए-उत्त्रास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में निदेशक श्रीमती शैलजा शर्मा को श्री जगदानन्दा पाण्डा, उत्त्रास महासंरक्षी की अनुपस्थिति में उत्त्रास महासंरक्षी के पद का कार्यभार संभालने के लिए प्राधिकृत करती है, जो 14 सितम्बर, 2007, सायं से 23 सितम्बर, 2007 तक अवकाश पर रहेंगे।

वी. के. भाटिया, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2007

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापना

सं. 51/2007 (फा. सं. सी-38012/14/2007-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत श्री एस. डी. प्रधान, उप-निदेशक, प्रणाली निदेशालय, मुंबई की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को दिनांक 20.8.2007 से मंजूर करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. 50/2007 (फा. सं. सी-50/91/2007-प्रशा. II)--केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम

12 के अंतर्गत सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के आयुक्त ग्रेड के सभी अधिकारियों को उक्त नियमावली के अंतर्गत निहित उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उनके उक्त ग्रेड में शामिल होने की तारीख से शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2007

सं. 52/2007 (फा. सं. सी-32012/1/2004-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री पी. देवालुदु को दिनांक 22.12.2003 से सभी परिणामी लाभों के साथ कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर कार्यात्मक प्रवर ग्रेड (14,300-400-18,300/- रु.) मंजूर करते हैं।

2. उक्त आदेश में कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में अधिकारियों की कोई पारस्परिक वरिष्ठता नहीं दी गई है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2007

सं. ए-22015/1/2004-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एम. एम. चोपड़ा, उप सचिव (तदर्थ) को दिनांक 01 जुलाई, 1999 की पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. पी.एफ.जी (2133)/प्रशा. I/2007--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री अश्विनी कुमार सहगल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अगस्त, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग की नफरी में से काट दिया जाएगा।

मीताली घोष, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. पी.एफ.जी (938)/07-प्रशा. I--कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 11/07/2007 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/4/2006-प्रशा. II के तहत उनके स्थानांतरण एवं इस मंत्रालय के मुख्यालय में तैनात किए जाने पर भारतीय कंपनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान अधिकारी,

श्री पी. के. मलहोत्रा ने दिनांक 27.07.2007 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में उप निदेशक (निरीक्षण) का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ए-11019/1/2006-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित उप सचिव नीचे उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं:--

क्र. सं.	नाम	अधिवर्षिता की तारीख
	(सर्वश्री)	
1.	स्वर्ण दास विदी	30.04.2007 (अपराह्न)
2.	पी. पी. शर्मा	31.05.2007 (अपराह्न)

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-42014/2/2007-संवर्ग--राष्ट्रपति, श्री ललन दास पी.आर.ए. जो कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) हैं को दिनांक 3 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से पूर्ति प्रभाग के सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर सलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) नियुक्त करते हैं। श्री ललन दास पी.आर.ए., उप सचिव को पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

2. उक्त तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

- (i) यह तदर्थ पदोन्नति, इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने के लिए अथवा चयन सूची ग्रेड में वरीयता संबंधी दावे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्तियां बिना कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

वी. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. ए-11019/1/2006-संवर्ग--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री अरूप चक्रवर्ती को, जोकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी हैं (जन्मतिथि 24.03.1959, सी.एस.एल. संख्या 5661) को 30 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अस्थाई आधार पर स्थानापन्न रूप में बतौर अवर सचिव कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। अवर सचिव श्री अरूप चक्रवर्ती को पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

2. यह अस्थाई प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- (i) यह अस्थाई प्रोन्नति उक्त ग्रेड में अनिश्चित काल बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) अस्थाई नियुक्ति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) यह अस्थाई नियुक्ति एम. ए. संख्या 2170/2006, ओ.ए. संख्या 2793/2005, एम.ए. संख्या 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य खण्डपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अधीन है।

बी. के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए-32011/5/2002-स्थापना I--राष्ट्रपति, डा. टी. के. चक्रवर्ती जो रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में नियमित उप औद्योगिक सलाहकार हैं, को 14 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से सभी परिणामी लाभों के साथ 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत करते हैं।

आर. के. कुरील, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. पृविम/44-स्था./116/88--पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय समद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, (सी एम एल आर ई) कोच्चि में 18,000-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'जी' के पद पर कार्यरत श्री वी रवीन्द्रनाथन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अगस्त, 2007 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ए-12025/13/2006-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. सुमोद कुरियन को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग के हृदय-विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर 01.05.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त हैं।

राम लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए-23024/1/2007-सी.एच.एस.-I--वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन एफ एस जी) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी (नियमितीकृत संवर्ग) डा. एम. डी. थापा ने चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा दिनांक 25.11.1982, 01.12.1991 तथा 01.01.1996 को क्रमशः वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन एफ एस जी) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ए-38012/13/2007-सी.एच.एस.-II--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी डी उप-संवर्ग में वरिष्ठ प्रशासन ग्रेड स्तर की अधिकारी डा. (श्रीमती) एलिजा बेथ मैथ्यूज की अधिवर्षिता वय पूरी होने पर सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप उन्होंने अपर निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के पद का कार्यभार 30.6.2007 (अपराह्न) से छोड़ दिया।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. 27-2734/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री खेतचिन लांगेल को कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर 1 अगस्त, 2007 से नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2007

सं. 27-2735/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री डी. प्रवीन को कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर 1 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. 27-2737/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती नीरजा अदिदम, आई एफ एस (उत्तर प्रदेश : 90) को दिनांक 14 अगस्त, 2007 के

पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक 14,300--18,300/- रु. के वेतनमान में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक के रूप में तैनात करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. 12023/11/2004-स्था.-II/स्था.V--राष्ट्रपति, नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (विधि) ग्रेड-I श्री हरिन्द्र पाल सिंह को कृषि एवं सहकारिता विभाग में दिनांक 16.7.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक नियमित आधार पर 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में विधि अधिकारी (उर्वरक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. ए-19012/2/1999-स्था.--राष्ट्रपति, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अपने विकल्प का उपयोग करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने के बाद इस मंत्रालय की श्रीमती उर्मिला गाबा, आशुलिपिक, ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) निजी सचिव को दिनांक 12 जुलाई, 2007 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

जे. पी. मेहता, अवर सचिव

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2007

सं. ई (जी पी)/96/1/5--भारतीय रेल क्लास-II आफिसर्स फेडरेशन एवं अन्य बनाम अनिल कुमार सांघी एवं अन्य के मामले में सिविल अपील सं. 92/1997 में, माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 23.09.2002 के निर्णय के अनुसरण में, वर्ष 1989 से 1993 तक भार.रे.सि.इं.से. की समूह 'क' (कनिष्ठ वेतनमान) में पदोन्नति के लिए संशोधित पैन्लों को इस मंत्रालय की 18.12.2002 की अधिसूचना सं. ई (जी पी)/96/1/5 के तहत जारी किया गया था।

परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति महोदय जी, वर्ष 1994 से 2001-02 की रिक्तियों के संबंध में भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा (भार.रे.सि.इं.से.) के समूह 'क' (कनिष्ठ वेतनमान) में सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के नीचे उल्लिखित 136 अधिकारियों को उसमें विनिर्दिष्ट तारीखों से तथा उल्लिखित रेलों पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपर्युक्त आदेश रेल मंत्रालय की 07.10.97 एवं 27.11.97 की अधिसूचना सं. ई (जी पी) 97/1/55, 07.02.2000 की अधिसूचना सं. ई (जी पी)/98/1/55, 08.01.2001 एवं 10.01.2003 की अधिसूचना सं. ई (जी पी)/99/1/55 एवं 16.05.2002, 31.05.2002 एवं 12.12.2003 की अधिसूचना सं. ई (जी पी)/2000/1/55 के तहत जारी आदेशों के अधिक्रमण में है।

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2

वर्ष 1994 के लिए पैन्ल  
मध्य रेल

(सर्वश्री)

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. एम. एन. महाजन   | 08.08.1997 |
| 2. वी. पी. जोशी    | -वही-      |
| 3. के. गोपालकृष्णन | -वही-      |

पूर्व रेल

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. गणेश दास              | 08.08.1997 |
| 2. मनोज कुमार बासु       | -वही-      |
| 3. पी. दास गुप्ता        | -वही-      |
| 4. एच. एन. हलदर (अ. जा.) | -वही-      |

उत्तर रेल

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. वाई. ए. सिद्धिकी | 08.08.1997 |
| 2. एस. एस. जैन      | -वही-      |

द. पू. रेल

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. डी. के. भट्टाचार्यजी | 08.08.1997 |
|-------------------------|------------|

द. रेल

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. आर. विश्वनाथन नायर | 08.08.1997 |
|-----------------------|------------|

वर्ष 1995 के लिए पैन्ल

मध्य रेल

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. के. प्रभाकरन | 08.08.1997 |
|-----------------|------------|

पूर्व रेल

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. ए. भट्टाचार्यजी | 08.08.1997 |
| 2. जी. सी. बेज     | -वही-      |

उत्तर रेल

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. एम. के. टुटेजा | 08.08.1997 |
| 2. सुरिन्दर पाल   | -वही-      |

द. म. रेल

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. जी. कृष्णामूर्ति           | 08.08.1997 |
| 2. वी. चलापाति राव (अनु. जा.) | -वही-      |

द. पू. रेल

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. वी. ऐ. रशीद            | 08.08.1997 |
| 2. पी. के. बिस्वास        | -वही-      |
| 3. वाई. लक्ष्मीनारायण     | -वही-      |
| 4. पी. के. दास (अनु. जा.) | -वही-      |

1	2
वर्ष 1996 के लिए पैनल	
मध्य रेल	
(सर्वश्री)	
1. एस. सी. मेहता	08.08.1997
2. के. आर. बोरकर (अनु. जा.)	-वही-
3. प्रेम प्रकाश	-वही-
4. जेड.आर. साव (अ. जा.)	-वही-
पूर्व रेल	
1. एस. के. चाकी	08.08.1997
2. टी. के. घोष	-वही-
3. मृणाल कान्ति बासु	-वही-
4. ए. के. मित्रा (अनु. जा.)	-वही-
पूर्वोत्तर रेल	
1. वी. पी. पाण्डे	08.08.1997
2. के. के. खरे	-वही-
3. के. हसन	-वही-
4. सुदामा राम (अनु. जा.)	-वही-
पूर्वोत्तर सीमा रेल	
1. एन. सी. नियोगी	08.08.1997
उत्तर रेल	
1. बी. डी. बेम्बी	08.08.1997
द. म. रेल	
1. एस. वेंकटनायणन	08.08.1997
द. पू. रेल	
1. एस. राय चौधरी	08.08.1997
2. एस. पी. मुखोपाध्याय	-वही-
3. पी. हलधर	-वही-
4. एन. के. दास (अनु. जा.)	-वही-
प. रेल	
1. वी. पी. आर्य	08.08.1997
2. ए. एन. टोके	-वही-
वर्ष 1997 के लिए पैनल	
मध्य रेल	
1. वी. वी. पाण्डे	04.01.2000
2. डी. एन. मिश्रा	-वही-
3. वी. के. विश्वनाथन	-वही-
पूर्व रेल	
1. एस. चौधरी	04.01.2000
2. आर. के. भट्टाचार्यजी	-वही-
3. बी. के. साहा (अनु. जा.)	-वही-

1	2
पूर्वोत्तर रेल	
(सर्वश्री)	
1. ए. एस. इराकी	04.01.2000
पूर्वोत्तर सीमा रेल	
1. सी. गोपालकृष्णन	04.01.2000
उ. रेल	
1. वी. डी. वैद्य	04.01.2000
2. एस. के. जोशी	-वही-
द. म. रेल	
1. मोहन सिंह भाटी	04.01.2000
द. पू. रेल	
1. टी. ए. नायडू	04.01.2000
2. एच. वाई. डेबरकर (अनु. जनजाति)	-वही-
द. रेल	
1. टी. मोहन राव	04.01.2000
प. रेल	
1. एस. एन. गुप्ता	04.01.2000
2. एच. के. शर्मा	-वही-
3. ए. के. सुरेश बाबू	-वही-
वर्ष 1998 के लिए पैनल	
	29.11.2000
मध्य रेल	
1. एस. वी. देशपांडे	29.11.2000
2. यू. एस. भट्ट	-वही-
3. के. विजयकुमारन	-वही-
4. सी. पी. भास्करन	-वही-
5. एच. के. पाण्डे	-वही-
6. ए.एम.निमोनकर	-वही-
7. एस. पी. सप्रे	-वही-
पूर्व रेल	
1. डी. पी. समाजदार	29.11.2000
2. एन. के. सान्याल	-वही-
3. स्वपन कुमार रे	-वही-
4. ए. के. गुप्ता	-वही-
5. के. एस. रॉय (अनु. जा.)	-वही-
पूर्वोत्तर रेल	
1. एम. जी. बैनर्जी	29.11.2000

1	2
पूर्वोत्तर रेल	
(सर्वश्री)	
1. ए. के. दास (अनु. जा.)	29.11.2000
2. बी. सिकंदर	-वही-
3. एस. बोस	-वही-
उ. रेल	
1. ओ. पी. चौपड़ा	29.11.2000
2. शेखर श्रीवास्तव	-वही-
3. के. ए. अब्दुल्ला	-वही-
4. के. सी. गोयल	-वही-
द. म. रेल	
1. पी. वी. रामन कुट्टी	29.11.2000
द. पू. रेल	
1. जे. जे. बैनर्जी	29.11.2000
2. कुबेर प्रमाणिक (अनु. जनजाति)	-वही-
द. रेल	
1. आर. सुब्बैयन (अनु. ज. जा.)	29.11.2000
प. रेल	
1. डी. आर. सेठी	29.11.2000
2. आर. के. गुप्ता	-वही-
3. ए. के. पराशर	-वही-
4. के. के. ग्रोवर	-वही-
5. राजवीर सिंह	-वही-
6. वी. के. शर्मा	-वही-
वर्ष 2000-2001 के लिए पैनल	
म. रेल	
1. आर. पी. एलेक्जेंडर	15.03.2002
2. एच. एस. दुबे	-वही-
3. वी. के. शर्मा	-वही-
पू. रेल	
1. एच. के. साहू	15.03.2002
2. एस. के. रॉय	-वही-
3. ए. के. डे	-वही-
4. टी. के. बिश्वास	-वही-
5. आर. पी. महतो	-वही-
पूर्वोत्तर रेल	
1. वी. एन. श्रीवास्तव	15.03.2002
पूर्वोत्तर सीमा रेल	
1. जी. सी. मजूमदार	15.03.2002
2. के. बी. गोस्वामी	-वही-
3. एन. आर. दत्ता	-वही-

1	2
उ. रेल	
(सर्वश्री)	
1. आर. के. लुगानी	15.03.2002
2. एफ. डी. मोर्य	-वही-
3. आई. एन. माथुर	-वही-
4. डी. के. निझारा	-वही-
5. बी. डी. प्रसाद	-वही-
6. डी. एस. गर्बियाल (अनु. ज. जा.)	-वही-
द. पू. रेल	
1. मनोज गुप्ता	15.03.2002
2. स्वराज कुमार घोष	-वही-
3. डी. कनकाम्भरम (अनु. जा.)	-वही-
द. रेल	
1. सी. चन्द्राशेखरन (अनु. जा.)	15.03.2002
प. रेल	
1. एच. पी. वाष्णैय	15.03.2002
2. एस. जी. मराठे	-वही-
3. सत्यप्रकाश (अनु. जा.)	-वही-
वर्ष 2001-2002 के लिए पैनल	
म. रेल	
1. पी. डी. निमोनकर	15.03.2002
2. जे. सी. मलिक	-वही-
3. अजय कुलश्रेष्ठ	-वही-
पू. रेल	
1. पी. के. सेठ	15.03.2002
2. एस. के. दास	-वही-
3. बी. डी. चौधरी	-वही-
पूर्वोत्तर रेल	
1. चिरंजी सिंह	15.03.2002
पूर्वोत्तर सीमा रेल	
1. यू. के. चौधरी	15.03.2002
2. ए. के. रॉय	-वही-
उ. रेल	
1. एस. एस. बाजवा	15.03.2002
2. ए. सी. माथुर	-वही-
3. अमर सिंह (अनु. जा.)	-वही-
द. म. रेल	
1. पी. रामनाथन	15.03.2002



1	2
द. पू. रेल (सर्वश्री)	
1. बी. वी. रमणा	15.03.2002
2. टी. के. बिस्वास (अनु.जा.)	-वही-
3. बी. के. बक्शी	-वही-
4. काशीनाथ सेठ	-वही-
द. रेल	
1. टी. नारायणन	15.03.2002
2. एस. श्रीनिवासन	-वही-
प. रेल	
1. सी. एल. शर्मा	15.03.2002
2. एन. के. नवनीत	-वही-

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ई (जी पी) 96/1/5--रेल मंत्रालय की 27.07.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा (भा.रे.सि.इं.से.) के समूह "क" (कनिष्ठ वेतनमान) के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के नीचे उल्लिखित 3 अधिकारियों को उसमें विनिर्दिष्ट तारीखों और उल्लिखित रेलों पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
वर्ष 1994 के लिए पैनल दक्षिण पूर्व रेलवे	
1. श्री जे. सी. रॉय-1	08.08.1997
वर्ष 1997 के लिए पैनल दक्षिण पूर्व रेलवे	
1. श्री कालीपदा दास	04.01.2000
वर्ष 2000-01 के लिए पैनल दक्षिण मध्य रेलवे	
1. श्री पी. मधु सूदन	15.03.2002

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. ई आर बी-I/98/3/8--श्रीमती चिंता देवी तंवर, अधीक्षक (टी ओ), रेलवे बोर्ड को 17.08.2007 के पूर्वाह्न से टेलीफोन अधिकारी, रेलवे बोर्ड (वेतनमान 6,500-10,500/-रु.) के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. ई आर बी-I/2007/2/49--श्रीमती उर्विला खाती, सेलेक्शन ग्रेड/भा. रे.का.से., निदेशक, वेतन आयोग-II, रेलवे बोर्ड को 24.08.2007 के पूर्वाह्न से 18,400-22,400/- रु. के ग्रेड में कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-II, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए-12022/1/2007-ई-I--राष्ट्रपति, श्री वी. के. पॉल, केंद्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी को 31.07.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा ग्रेड-I में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

3. यह उक्त नियुक्ति एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अध्वधीन है।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

सं. ए-32013/5/2004-ई-II (खण्ड I)--राष्ट्रपति, श्री प्रभात कृष्णा की पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में, मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 16.07.2007 से 30.09.2007 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

सं. ए-32013/5/2004-ई-II (खण्ड I)---राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में, मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को उनके नामों के आगे अंकित तारीख से छः और माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	जिस तारीख से अवधि बढ़ाई गई
सर्वश्री	
1. एच. एस. आहलुवालिया	04.07.2007
2. कमलेश कुमार	26.07.2007

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-32014/2/2004-ई-II (बी)---कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.03.2007 और 29.06.2007 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस. II के अनुसार, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के श्री सुशील कुमार, आशुलिपिक ग्रेड-सी को दिनांक 14.08.2007 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में निजी सचिव के पद पर दिनांक 31.12.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए-12022/3/2007-स्था-I---कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.07.2007 के आदेश सं. 12/14/2007-ई ओ (एस. एम. आई.) के अनुसार, राष्ट्रपति, श्री ब्रह्म दत्त, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 73) को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

#### विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. 28/2007-मि.सं. ए-38012/1/2007-प्रशा. एक---राष्ट्रपति श्री संतोष कुमार को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 24 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री संतोष कुमार दो वर्ष की अवधि तक परीवीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 29/2007-मि.सं. ए-38012/1/2007-प्रशा. एक---अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 31 जुलाई, 2007 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	श्री एम. एल. शर्मा	मुख्य अभियन्ता
2.	श्री विजय कुमार	निदेशक
3.	श्री किरपाल सिंह	उप निदेशक

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

#### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. 18/2007, फाइल सं.-2/9/2006-प्रशा. I---राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार अरोड़ा, आई आर पी एस (92), को दिनांक 17.08.2007 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में जल संसाधन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। इस मंत्रालय में उनका कार्यकाल 16.08.2011 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, होगा।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

#### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2007

सं. 1/83/2004-एम यू सी---राष्ट्रपति, श्री बी. पी. मीणा को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दिनांक 16.03.2007 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर मीडिया कार्यपालक (समूह 'क', राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शाम लाल, अवर सचिव

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. ए-22012/1/2006-प्रशा. I---राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 2007 के आदेश संख्या 4/2/2007-सी. एस-I के अनुसरण में तथा वर्ष 1999 के लिए के. स. से. संवर्ग के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप के.स.से. (सी.एस.एस.) के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को उक्त संवर्ग में दिनांक 1 जुलाई, 1999 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम और पदनाम	सी एस एल सं.
1.	श्री एच. जी. कुकुरेजा, उप सचिव	3123
2.	श्री एस. पी. गुप्ता, उप सचिव	3147
3.	श्री हरीश चन्द्र गौड़, उप सचिव	3214

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

## VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th August 2007

No. 03/03/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Shumsher K. Sheriff, IAS (AGMU:77) as Secretary to Vice-President of India with effect from the forenoon of 24th August 2007 until further orders.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy.

No. 03/04/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Parvathaneni Harish, IFS (90) as Officer on Special Duty to the Vice-President of India with effect from the forenoon of 20th August 2007 until further orders.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy.

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110001, the 31st August 2007

No. A-22012/1/2007-PMA.—Consequent upon inclusion of their names in the Select Lists for the year 2001 and 2002 of Grade I Officers of Central Secretariat Service, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries on regular basis in the Prime Minister's Office with immediate effect until further orders :

Sl. No., Name, CSI No. Select List

1. Rajinder Sharma, 39998, 2001
2. Sisir Das, 4045, 2001
3. P.A.K. Vinayak, 3882-A, 2002

P.K. ROY, Dy. Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd August 2007

No. RS/6 (i)/2007/94-Perl.—In continuation of Notification No. RS/6(i)/2007/93-Perl dated 14th August, 2007, Shri Gurdeep Singh Sappal, Officer on Special Duty on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been appointed in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 14th August 2007 until further orders.

K. SUDHAKARAN, Dy. Dir.

New Delhi-110001, the 31st August 2007

No. RS/1091/Estt (P).—On attaining the age of superannuation, Shri P.L. Gaiind, Assistant Director retired from service with effect from the afternoon of the 31st August 2007.

C. B. RAI, Jt. Dir.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 31st August 2007

No. AS/S-25.—The President is pleased to reconstitute the Space Commission with the following composition until further orders :—

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Shri G. Madhavan Nair<br>Secretary, Department of Space          | Chairman         |
| 2. Shri Prithviraj Chavan<br>Minister of State (PMO)                | Member           |
| 3. Shri M.K. Narayanan<br>National Security Adviser                 | Member           |
| 4. Shri T.K.A. Nair<br>Principal Secretary to Prime Minister        | Member           |
| 5. Shri K.M. Chandrasekhar<br>Cabinet Secretary                     | Member           |
| 6. Dr. D. Subba Rao<br>Secretary,<br>Department of Economic Affairs | Member           |
| 7. Shri R.C. Joshi<br>Member (Finance), Space Commission            | Member (Finance) |
| 8. Prof. R. Narasimha<br>Ex-Director, NIAS                          | Member           |
| 9. Shri N. Pant<br>Ex- Deputy Chairman, ISRO                        | Member           |
| 10. Dr. B.N. Suresh<br>Director, IIST                               | Member           |

S. V. RANGANATH,  
Secy. to the Space Commission

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 27th August 2007

No. A-32014/02/2006-Admn.IV(LA).—In pursuance of Office Memorandum No. 21/61/2005-CS.I dated 3rd July 2007 issued by Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar, Assistant in Legislative Department as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the CSS Cadre of the Ministry of Law and Justice [Department of Legal Affairs and Legislative Department] with effect from the forenoon of 27th August 2007 until further orders.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 31st August 2007

No. A-32015/3/2006-Admn.IV(LA).—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS-II dated 09.08.2007 and consequent upon their joining, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre as Private Secretary

on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6,500–10,500/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs w.e.f. 09.08.2007 to 31.12.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Present place of posting
	S/Shri	
1.	Bhawani Prasad	LD
2.	Ms. Shikha Khurana	LA
3.	Ranjit Singh	LD
4.	R. Karunakaran	LD

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) for the above said period.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT**

New Delhi, the 2nd July 2007

No. A-19011/1/2007-ISC (Adm.).—The President is pleased to appoint Ms. Veena Upadhyaya, IAS (UP:76) as Adviser, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 29th June 2007

SUDHIR KUMAR, Dy. Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)**

New Delhi, the 17th August 2007

No. 13017/14/2007-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Assam-Meghalaya and Chhattisgarh, the Central Government hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Vijayendra, IAS (AM:91) from Assam-Meghalaya to Chhattisgarh for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

The 22nd August 2007

No. 13017/24/2004-AIS (I)(Pt.).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative

Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby accords approval for extension of deputation of Shri M.G.V.K. Bhanu, IAS (AM:85) from Assam-Meghalaya to Andhra Pradesh for a final period of one year beyond 02.08.2007 with the stipulation that no further extension be allowed under any circumstances and that the officer will automatically attract disciplinary proceedings if he does not report for duty in Assam by 05.08.2008.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

The 24th August 2007

No. 13013/1/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby re-allocates Shri Vinay Shukla, IAS (RR:74) from Chhattisgarh Cadre to Madhya Pradesh Cadre with immediate effect.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

The 27th August 2007

No. 13017/13/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Rajasthan and Haryana, the Central Government hereby transfers Shri A. Sreenivas, IAS (RJ:2004) from IAS Cadre of Rajasthan to the IAS Cadre of Haryana with immediate effect on the grounds of marriage to Smt. Mona Pruthi, IAS (HY:2006) of Haryana Cadre.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

New Delhi, the 30th August 2007

No. 23012/04/2007-AIS III.—Shri Vijay Dahiya, IAS (HY:2001), appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2000 and borne on the cadre of Haryana, has been permitted to change his name from "Vijay Dahiya" to "Vijay Singh Dahiya". He will accordingly be recognised as Shri Vijay Singh Dahiya for all official purposes.

G. C. PANDEY, Under Secy.

**MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS**

New Delhi, the 29th August 2007

No. A-19011/4/2006-PA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorizes Smt. Shailja Sharma, Director in the Ministry of Overseas Indian Affairs to look after the work of Protector General of Emigrants in the absence on leave of

Shri Jagadenanda Panda, Protector General of Emigrants, from 14th September, 2007 evening to 23rd September, 2007.

V. K. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 6th August 2007

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL  
EXCISE ESTABLISHMENTS)

No. 51 of 2007 (F. No. A-38012/14/2007-AD.II).—The President is pleased to accept the notice of voluntary retirement of Shri S. D. Pradhan, Deputy Director, Dte. of Systems, Mumbai under Rule 48 of CCS (Pension), Rules with effect from 20.08.2007.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS

The 8th August 2007

No. 50 of 2007 (F. No. C-50/91/2007-AD.II).—In order to exercise statutory powers under Rule 12 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, all officers of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) in the grade of Commissioners are authorized to exercise powers for discharging responsibilities vested under the said Rules, w.e.f. the date they have been in the said grade.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 10th August 2007

No. 52 of 2007 (F. No. A-32012/1/2004-AD.II).—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade (Rs. 14,300-400-18,300/-) in the Junior Administrative Grade to Shri P. Devaludu w.e.f. 22.12.2003 with all consequential benefits.

2. The order has no bearing on the inter se-seniority of the officers in the Junior Administrative Grade.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 28th August 2007

No. A-22015/1/2004-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri M.M. Chopra, Dy. Secretary (Adhoc) of CSS on regular basis in the grade of Dy. Secretary in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in Ministry of Finance, Department of Expenditure, under the Central Staffing

Scheme with effect from the forenoon of 1st July 1999 or until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 31st August 2007

No. PFG (2133)/Admn.I/2007.—Shri Ashwani Kumar Sehgal, Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st August 2007.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th August 2007

No. PFG (938)/07-Ad.I.—Consequent upon his transfer and posting in the Headquarters of Ministry of Corporate Affairs vide this Ministry's Office Order No. A-22011/4/2006-Ad.-II dated 11.07.2007, Shri P. K. Malhotra a Senior Time Scale Officer of Indian Company Law Service has assumed the charge of the post of Deputy Director (Inspection) in the Ministry of Corporate Affairs, Hqrs with effect from the forenoon of 27.07.2007.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 27th August 2007

No. A-11019/1/2006-Cadre.—On attaining the age of superannuation, the following Deputy Secretaries of CSS Cadre of Department of Commerce (Supply Division) have retired from Government service with effect from the date mentioned against their names :—

S.No., Name, Date of Superannuation

1. Shri Swarn Dass Viridi, 30.04.2007 (AN)

2. Shri P.P. Sharma, 31.05.2007 (AN)

V. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-42014/2/2007-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri Lalan Das P R A, Grade-I (Under Secretary) of CSS, to the Selection Grade (Deputy Secretary) on adhoc basis w.e.f. the forenoon of 3rd August 2007 in the CSS Cadre of Supply Division Shri Lalan Das P R A, Deputy Secretary is posted in DGS&D.

2. The Ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Adhoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. K. SHARMA, Under Secy.

The 31st August 2007

No. A-11019/1/2006-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri Arup Chakraborty, Regular Section Officer of CSS (DOB:24.03.1959, CSL No. 5661) to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of July 30, 2007 in the CSS Cadre of Supply Division. Shri Arup Chakraborty, Under Secretary is posted in DGS&D.

2. The ad-hoc promotion is subject the following conditions :—

- (i) The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-1.
- (ii) Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The adhoc appointment is subject to the order dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

V. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 22nd August 2007

No. A-32011/5/2002-Estt.—The President is pleased to promote Dr. T. K. Chakravarthy, a regular Deputy Industrial Adviser in the Department of Chemicals & Petrochemicals to the post of Joint Industrial Adviser in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 14th August 2007 with all consequential benefits.

R. K. KUREEL, Under Secy.

#### MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 31st August 2007

No. MoES/44-Estt./116/88.—On attaining the age of superannuation, Shri V. Ravindranathan, Scientist 'G', Centre for Marine Living Resources & Ecology (CMLRE),

Kochi an attached office of Ministry of Earth Sciences in the scale of pay of Rs. 18,000-500-22,400/- has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st August 2007.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th August 2007

No. A. 12025/13/2006-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sumod Kurian to the post of Assistant Professor in the speciality of Cardiology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 01.05.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 24th August 2007

No. A. 23024/1/2007-CHS.I.—Consequent on his promotion to the post of Senior Medical Officer, Chief Medical Officer and Chief Medical Officer (NFSG), Dr. M. D. Thapa General Duty Medical Officer (regularized cadre) of the Central Health Service, Working under Government of National Capital Territory of Delhi has relinquished the charge of the post of M.O., S.M.O. and C.M.O. and assumed the charge of the post of S.M.O., C.M.O. and C.M.O (NFSG) on 25.11.1982, 01.12.1991 and 01.01.1996 respectively.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 27th August 2007

No. A. 38012/13/2007-CHS.II.—Consequent on retirement on attaining the age of superannuation, Dr. (Mrs.) Elizabeth Mathews—a SAG level officer in GD Sub Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Addl. Director, CGHS, Chennai w.e.f. 30.06.2007 (AN)

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 7th August 2007

No. 27-2734/2007-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri Khatchin Langel, as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 1st August 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 8th August 2007

No. 27-2735/2007-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri D. Praveen, as Under Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 1st August 2007

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 20th August 2007

No. 27-2737/2007-Estt. I.—The President is pleased to appoint Smt. Neeraja Adidam, IFS (UP:90), as Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 14,300-18,300/- with effect from the forenoon of 14th August 2007 and until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 2007

No. 12023/11/2004-E.II/E.V.—The President is pleased to appoint Shri Harinder Pal Singh, a regular Senior Technical Assistant (Law) Grade-I in the Department of Agriculture & Cooperation as Law Officer (Fertilizer) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis, with effect from the forenoon of 16.07.2007 until further orders.

K. SANJAYAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 5th July 2007

No. A-19012/2/1999-Estt.—On exercise of her option for Voluntary Retirement under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules 1972 and on acceptance of the same by the Competent Authority, the President is pleased to permit Smt. Urmila Gaba, Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) in this Ministry to retire from the Govt. Service with effect from the forenoon of 12th July 2007.

J. P. MEHTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th July 2007

No. E (GP)96/1/5.—In compliance with the judgment dated 23.09.2002 of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 92/1997 in the case of Indian Railway Class-II officers' federation and another Vs Anil Kumar Sanghi & others, revised panels for promotion to Group 'A' (Junior Scale) of IRSSE for the year 1989 to 1993 were issued under this Ministry's Notification No. E(GP)96/1/5 dated 18.12.2002.

2. Consequently, the President is now pleased to appoint the undermentioned 136 officers of Signal & Telecommunication Deptt. to Group 'A' (Junior Scale) of the Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) against the vacancies for the year 1994 to 2001-02 w.e.f. the dates specified therein and on the Railways mentioned. The above orders are in supersession of the orders issued vide Ministry of Railways Notification No.E(GP)97/1/55 dt. 07.10.1997, 27.11.1997, No. E(GP)98/1/55 dt. 07.02.2000, No. E(GP)99/1/55 dt. 08.01.2001 and 10.01.2003, No. E(GP)2000/1/55 dt. 16.05.2002, 31.05.2002 and 12.12.2003 :—

Name of the officer	Date of effect
1	2
Panel for the year 1994	
CR	
(S/Shri)	
1. M.N. Mahajan	08.08.1997
2. V.P. Joshi	-do-
3. K. Gopalkrishnan	-do-
ER	
1. Ganes Das	-do-
2. Monoj Kr. Basu	-do-
3. P. Das Gupta	-do-
4. H.N. Haldar (SC)	-do-
NR	
1. Y.A. Siddiqui	-do-
2. S.S. Jain	-do-
SER	
1. D.K. Bhattacharjee	-do-
SR	
1. R. Viswanathan Nair	-do-
Panel for the year 1995	
CR	
1. K. Prabhakaran	08.08.1997
ER	
1. A. Bhattacharjee	-do-
2. G.C. Bej	-do-
NR	
1. M.K. Tuteja	-do-
2. Surinder Pal	-do-
SCR	
1. G. Krishnamurthy	-do-
2. V. Chalapathi Rao (SC)	-do-

1	2	1	2
SER		S/Shri)	
(S/Shri)		2. D.N. Mishra	04.01.2000
1. V. A. Rasheed	08.08.1997	3. V.K. Vishwanathan	-do-
2. P. K. Biswas	-do-	ER	
3. Y. Lakshminarayana	-do-	1. S. Chowdhury	-do-
4. P. K. Das (SC)	-do-	2. R.K. Bhattacharjee	-do-
Panel for the year 1996		3. B.K. Saha (SC)	-do-
CR		NER	
1. S. C. Mehta	08.08.1997	1. A.S. Iraqui	-do-
2. K. R. Borkar (SC)	-do-	NFR	
3. Prem Prakash	-do-	1. C. Gopalakrishnan	-do-
4. Z. R. Sao (SC)	-do-	NR	
ER		1. V.D. Vaid	-do-
1. S.K. Chaki	-do-	2. S.K. Joshi	-do-
2. T.K. Ghosh	-do-	SCR	
3. Mrinal Kanti Basu	-do-	1. Mohan Singh Bhati	-do-
4. A.K. Mitra (SC)	-do-	SER	
NER		1. T.A. Naidu	-do-
1. V.P. Pandey	-do-	2. H.Y. Doburkar (ST)	-do-
2. K.K. Khare	-do-	SR	
3. K. Hasan	-do-	1. T. Mohan Rao	-do-
4. Sudama Ram (SC)	-do-	WR	
NFR		1. S.N. Gupta	-do-
1. N.C. Neogi	-do-	2. H.K. Sharma	-do-
NR		3. A.K. Suresh Babu	-do-
1. V.D. Bembi	-do-	Panel for the year 1998	
SCR		CR	
1. S.Venkatanarayanan	-do-	1. S.V. Deshpandey	29.11.2000
SER		2. U.S. Bhatt	-do-
1. S. Roy Chowdhury	-do-	3. K. Vijaykumaran	-do-
2. S.P. Mukhopadhyaya	-do-	4. C.P. Bhaskaran	-do-
3. P. Halder	-do-	5. H.K. Pandey	-do-
4. N.K. Das (SC)	-do-	6. A.M. Nimonkar	-do-
WR		7. S.P. Sapre	-do-
1. V.P. Arya	-do-	ER	
2. A.N. Toke	-do-	1. D.P. Samajdar	-do-
Panel for the year 1997		2. N. K. Sanyal	-do-
CR		3. Swapan Kumar Ray	-do-
1. V.V. Pande	04.01.2000		



1	2	1	2
(S/Shri)		(S/Shri)	
4. A.K. Gupta	29.11.2000	4. T.K. Biswas	15.03.2002
5. K.S. Roy (SC)	-do-	5. R.P. Mahato	-do-
NER		NFR	
1. M.G. Banerjee	-do-	1. V.N. Srivastava	-do-
NFR		NFR	
1. A.K. Das (SC)	-do-	1. G.C. Majumder	-do-
2. B. Sikder	-do-	2. K.B. Goswami	-do-
3. S. Bose	-do-	3. N.R. Dutta	-do-
NR		NR	
1. O.P. Chopra	-do-	1. R.K. Lugani	-do-
2. Shekhar Srivastava	-do-	2. F.D. Maurya	-do-
3. K.A. Abdulla	-do-	3. I.N. Mathur	-do-
4. K.C. Goel	-do-	4. D.K. Nijhara	-do-
SCR		5. B.D. Prasad	-do-
1. P.V. Ramana Kutty	-do-	6. D.S. Garbiyal (ST)	-do-
SER		SER	
1. J.J. Banerjee	-do-	1. Manoj Gupta	-do-
2. Kuber Pramanick (SC)	-do-	2. Swaraj Kr. Ghosh	-do-
SR		3. D. Kanakambharam (SC)	-do-
1. R. Subbaian (ST)	-do-	SR	
WR		1. C. Chandrasekaran (SC)	-do-
1. D.R. Sethi	-do-	WR	
2. R.K. Gupta	-do-	1. H.P. Varshney	-do-
3. A.K. Parashar	-do-	2. S.G. Marathe	-do-
4. K.K. Grover	-do-	3. Satyaprakash (SC)	-do-
5. Rajvir Singh	-do-	Panel for the year 2001-2002	
6. V.K. Sharma	-do-	CR	
Panel for the year 2000-2001		1. P.D. Nimonkar	15.03.2002
CR		2. J.C. Malik	-do-
1. R.P. Alexander	15.03.2002	3. Ajay Kulshreshtha	-do-
2. H.S. Dubey	-do-	ER	
3. V.K. Sharma	-do-	1. P.K. Seth	-do-
ER		2. S.K. Das	-do-
1. H.K. Sahu	-do-	3. B.D. Chowdhury	-do-
2. S.K. Roy	-do-	NER	
3. A.K. Dey	-do-	1. Chiranjee Singh	-do-
		NFR	
		1. U.K. Choudhury	-do-
		2. A.K. Roy	-do-
		NR	
		1. S.S. Bajwa	-do-

1	2
(S/Shri)	
2. A.C. Mathur	15.03.2002
3. Amar Singh (SC)	-do-
SCR	
1. P. Ramanathan	-do-
SER	
1. B.V. Ramana	-do-
2. T.K. Biswas (SC)	-do-
3. B.K. Bakshi	-do-
4. Kashinath Seth	-do-
SR	
1. T. Narayanan	-do-
2. S. Srinivasan	-do-
WR	
1. C.L. Sharma	-do-
2. N.K. Navneet	-do-

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

The 22nd August 2007

No. E(GP)96/1/5.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 27.07.2007, the President is pleased to appoint the undermentioned 3 officers of Signal & Telecommunication Engg. Deptt. to Group 'A' (Junior Scale) of the Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) w.e.f. the dates specified therein and on the Railways mentioned :—

Name of the officer Date of effect

Panel for the year 1994

SER

(S/Shri)

1. J.C. Roy-I 08.08.1997

Panel for the year 1997

SER

1. Kalipada Das 04.01.2000

Panel for the year 2000-01

SCR

1. P. Madhusudan 15.03.2002

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

The 27th August 2007

No. ERB-I/98/3/8.—Smt. Chinta Devi Tanwar, Supdt. (TO), Railway Board has been promoted as Telephone Officer, Railway Board (Scale Rs. 6,500–10,500), on ad

hoc basis for a period of one year with effect from the forenoon of 17.08.2007.

MATHEW JOHAN, Secy., Railway Board

The 30th August 2007

No. ERB-I/2007/2/49.—Smt. Urvilla Khati, SG/IRPS, Director, Pay Commission-II, Railway Board, is appointed as Executive Director, Pay Commission-II, Railway Board, in Grade Rs. 18,400–22,400/- with effect from the forenoon of 24.08.2007.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS  
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS)

New Delhi, the 13th August 2007

No. A-12022/1/2007-E.I.—The President is pleased to appoint Shri V.K. Paul, a regular Section Officer of Central Secretariat Service as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) on purely adhoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 w.e.f. 31.07.2007 (F.N.) till further orders.

2. The adhoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor.

3. The aforesaid appointment is subject to the order dated. 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy

No. A-32013/5/2004-E.II (Pt.I).—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri Prabhat Krishna as Chief Engineer (Civil) in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways from 16.07.2007 to 30.09.2007, or until further orders, whichever is earlier.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

No. A-32013/5/2004-E.II (Pt.I).—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of following officers as Chief Engineer (Civil) in the Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways for a period of six months with

effect from the dates as indicated against their names or until further orders whichever is earlier :—

Sl. No., Name of the Officer and With effect from

1. Shri H.S. Ahluwalia, 04.07.2007
2. Shri Kamlesh Kumar, 26.07.2007

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

No. A-32014/2/2004—E.II(B).—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's OM.No. 5/8/2006-CS.II dated 01.03.2007 and 29.06.2007, the President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Health as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Road Transport & Highways on adhoc basis w.e.f. 14.8.2007 (FN) for the period upto 31.12.2007 or until further orders whichever is earlier.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

No. A-12022/3/2007-E-I.—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 12/14/2007-EO (S.M.I) dated 25.07.2007, the President is pleased to appoint Shri Brahm Dutt, IAS (KN:73) as Secretary, Department of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways w.e.f. 01.08.2007 (F.N.)

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 31st August 2007

No. 28/2007 (No.A-38012/1/2007-Adm.I.)—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority with effect from 24th July 2007 (Forenoon) until further orders.

2. Shri Santosh Kumar will be on probation for a period of two years.

R.C. ARORA, Under Secy.

No. 29/2007 (F.No.-A-38012/1/2007-Adm. I)—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, Central Electricity Authority retired from service under the Government of India in the

afternoon of 31st July, 2007 on attaining the age of superannuation :—

S.No., Name of the Officer & Designation

1. Shri M.L. Sharma, Chief Engineer
2. Shri Vijay Kumar, Director
3. Shri Kirpal Singh, Deputy Director

R.C. ARORA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd August 2007

No. 18/2007 (F.No. 2/9/2006-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Kumar Arora, IRPS (92), as Deputy Secretary in the Ministry of Water Resources on central deputation, in the scale pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 17.08.2007. His tenure in the Ministry will be up to 16.08.2011, or until further orders, whichever event occurs earlier.

N.K. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 17th August 2007

No. 1/83/2004-MUC.—The President is pleased to appoint Shri B.P. Meena, to the post of Media Executive (Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis, in the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting, with effect from 16.03.2007 (FN)

SHAM LAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 21st August 2007

No. A-22012/1/2006-Adm.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2007-CS-I dated 16th August, 2007 and consequent upon their inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of the CSS Cadre for the year 1999, the President is pleased to appoint the following Grade-I officers of the Central Secretariat Service (CSS) on regular basis in the Cadre with effect from 1st July 1999 :—

S.No., Name & Designation & CSL No.

1. Shri H.G. Kukreja, Deputy Secretary, 3123
2. Shri S.P. Gupta, Deputy Secretary, 3147
3. Shri Harish Chander Gaur, Deputy Secretary, 3214

PRADEEP GAUR, Under Secy.